

प्रेस नोट दिनांक 02.04.2021

थाना इज्जतनगर बरेली।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक इज्जतनगर के नेतृत्व में थाना इज्जतनगर क्षेत्र में दिनांक 31.03.2021 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 190/21 धारा 392/323/504/506 आईपीसी के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया था। जिसमें गठित पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग का सकुशल अनावरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.03.2021 को वादी श्री सुमित कुमार जोशी पुत्र श्री रामदास जोशी नि0 अशोक विहार थाना इज्जतनगर बरेली ने डायल 112 एवं लिखित सूचना अंकित करायी कि शाम को 07.45 बजे के आसपास जब वह घनश्याम मन्दिर सैनिक कालोनी में नाई की दुकान के सामने खड़ा था तो इस समय 4 अज्ञात लड़कों द्वारा इसकी आंखों में मिर्च झोंककर उसकी सोने की चैन लूट ली गयी तथा अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए अभिगण फरार हो गये। इस सूचना पर थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 190/21 धारा 392/323/504/506 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। इस घटना की सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा थाना इज्जतनगर पुलिस को घटना के सफल अनावरण के निर्देश दिये गये।

पुलिस द्वारा अल्प समय में इस घटना का सफल अनावरण किया गया। मामला दो गुटों के बीच मारपीट का पाया गया। उक्त अभियोग के अनावरण हेतु गठित टीम द्वारा उक्त अभियोग में गहनता से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा सुमित कुमार जोशी व 1.सत्यम उर्फ गोलू पुत्र ज्ञानेन्द्र वाजपेई नि0 अमरनाथ कालोनी निकट चार खम्भा थाना बारादरी बरेली 2.लक्ष्य अरोड़ा उर्फ कन्हैया पुत्र दिनेश अरोड़ा नि0 C 26 माडल टाउन गुरुद्वारे के पास थाना बारादरी बरेली 3.अंकित शेखर पुत्र चन्द्र शेखर नि0 मिथिलापुरी फैस 2 निकट पीपल का पेड़ थाना इज्जतनगर बरेली 4.अनुज पुत्र रामभरोसे लाल शर्मा नि0 दाल मील के सामने संजय नगर थाना बारादरी बरेली 5.तरुण पुत्र सुदेश कुमार नि0 मोहल्ला जोगियान गली गुरुद्वारे के पीछे संजय थाना बारादरी बरेली एक दूसरे के परम मित्र है। अंकित शेखर व वादी मुकदमा सुमित जोशी के बीच दि0 21.02.2021 को थाना बारादरी क्षेत्र में झगड़ा हुआ था। जिसकी रिपोर्ट अंकित शेखर द्वारा सुमित आदि के खिलाफ NCR No 73/21 धारा 323/504 IPC थाना बारादरी पर लिखाई थी। इस घटना की प्रतिक्रिया में ही उक्त पांचों ने मिलकर दिनांक 31.03.2021 की शाम को मोहल्ला सैनिक कालोनी घनश्याम मन्दिर के पास नाई की दुकान के सामने खड़े उक्त सुमित जोशी की आंखों में मिर्च फेंककर इसके साथ मारपीट की गयी। मारपीट की इस घटना को वादी सुमित जोशी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर डायल 112 पर दर्ज करायी गया और स्वयं के साथ 4 अज्ञात लड़कों द्वारा चैन लूट की घटना करना बताया गया। घटना में लूट का होना नहीं पाया गया। मारपीट की इस घटना में शामिल सत्यम उर्फ गोलू वाजपेयी तथा लक्ष्य अरोड़ा उर्फ कन्हैया को धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मामला लूट का न पाये जाने पर अभियोग से धारा 392 आईपीसी का लोप करते हुए उक्त अभियोग को धारा 147/323/504/506 आईपीसी में परिवर्तित किया गया।

घटनास्थल/ दिनांक/ समय:- घनश्याम मन्दिर के पास सैनिक कालोनी गली नं0 01 दिनांक 31.03.2021 समय 19.45 बजे।

नाम पता अभियुक्त:-

1. सत्यम उर्फ गोलू पुत्र ज्ञानेन्द्र वाजपेई नि0 अमरनाथ कालोनी निकट चार खम्भा थाना बारादरी बरेली
2. लक्ष्य अरोड़ा उर्फ कन्हैया पुत्र दिनेश अरोड़ा नि0 C 26 माडल टाउन गुरुद्वारे के पास थाना बारादरी बरेली
- 3.अंकित शेखर पुत्र चन्द्र शेखर नि0 मिथिलापुरी फैस 2 निकट पीपल का पेड़ थाना इज्जतनगर बरेली
- 4.अनुज पुत्र रामभरोसे लाल शर्मा नि0 दाल मील के सामने संजय नगर थाना बारादरी बरेली
- 5.तरुण पुत्र सुदेश कुमार नि0 मोहल्ला जोगियान गली गुरुद्वारे के पीछे संजय थाना बारादरी बरेली

बरामदा सामान:- घटना में लूट का होना नहीं पाया गया। मामला दो गुटों के बीच मारपीट का है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:- उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी, उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 नीलेन्द्र, का0 466 विशाल, का0 लख्मीचन्द्र थाना इज्जतनगर बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक इज्जतनगर
जनपद बरेली।**